JBM Auto Limited

Plot No. 133, Sector 24, Faridabad - 121 005 (Haryana)

T: +91 - 129-4090200 F: +91 - 129-2234230 W: www.jbm-group.com



JBMA/SEC/2021-22/17 19th July, 2021

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Tower, Dalal Street, Mumbai – 400001 Script Code: 532605 The National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, 5th Floor Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400051

Symbol: JBMA

Sub: Intimation of Transfer of Equity Shares for the financial year 2013-14 of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Demat Account

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with Para A of Part A of Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose the following documents as required under Section 124 of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016:

- 1. Copy of circular letter sent to the shareholder dated 10th July, 2021; and
- 2. Copy of newspaper advertisements published in the Business Standard, English & Hindi editions, on 15th July, 2021.

This is for your information and record please.

Thanking you,

Yours faithfully,

For JBM Auto Limited

Vivek Gupta Digitally signed by Vivek Gupta Date: 2021.07.19 16:36:24 +05'30'

Vivek Gupta

Chief Financial Officer

& Company Secretary cum Compliance Officer

Encl.: As above

Works:

Plant II: Plot No. 5, Sector 31, Kasna Indl. Area, Greater Noida, Gautam Budh Nagar-201 306 T:+91 120 4522500, F:+91 120 4522504

Plant III : 71-72, M.I.D.C. Satpur, Nashik - 422 007 T: +91 253 2207297 F: +91 253 2360559

Plant IV: Plot No. B-2, Survey No. 1, Tata Motors Vendor Park, Sanand, Ahemdabad - 382 170 (Gujarat) T:+91 2717 645180

Plant V: Plot No. 157-E, Sector 3, Pithampur Industrial Area, Distt. Dhar-454 775 (M.P.)

Plant VI: SP-1/891. RIICO Industrial Area, Pathredi, Distt. Alwar, Rajasthan -303107

Corp. Office: Plot No. 9, Institutional Area, Sector 44, Gurgaon- 122003 (Hr.) 7:+91-124-4674500, 4674550 F:4+91-124-4674599

Regd. Office: 601, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi - 110 019 T: +91 11 26427104, F: +91 11 26427100

CIN: L74899DL1996PLC083073

JBM Auto Limited

(CIN: L74899DL1996PLC083073)

Registered Office: 601, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi – 110019

Tel. +91 11 26427104-06 Fax +91 11 26427100 E-mail id: secretarial.jbma@jbmgroup.com

Website: www.jbmgroup.com

JBMA/SEC/IEPF2013-14/

10th July, 2021

(Name of Shareholder) (Address of Shareholder)

Folio/ DP-Client ID : No. of Equity Shares :

Sub: Intimation with respect to transfer of unclaimed shares u/s 124 (6) of the Companies Act, 2013 to the Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Dear Shareholder(s),

JBM Auto Limited has been declaring and paying dividend on its paid-up equity capital from time to time to its shareholders. The complete dividend details are available at its website i.e. www.jbmgroup.com.

In reference to the captioned subject & in pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Rule 6(3) of Investors Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("Rules"), as amended from time to time, shares on which dividend has not been paid or claimed by a shareholder for a period of seven consecutive years or more, shall be transferred to demat account of the Investors Education and Protection Fund ('IEPF Account') constituted in accordance of the Rules. Upon transfer of such shares, all corporate benefits accruing on such shares shall also be credited to the IEPF Account and the Voting Rights on such shares shall remain frozen till the rightful owner claims the shares.

As per the records of the Company, you have not claimed the dividend declared by the Company for a period of seven consecutive years or/ and more and therefore your shares are liable for transfer to the IEPF Account.

Please take note that unclaimed or unpaid dividend which have already been or the shares which are being transferred by the Company to IEPF Fund or IEPF Account including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by the shareholders from Investors Education and Protection Fund Authority ('IEPFA') by following the procedure given on the website of IEPFA i.e. http://iepf.gov.in/IEPFA/refund.html.

We, therefore, advise you to claim your unclaimed or uncashed dividends for the financial year 2013-14 and onwards by making an application to either Company at above mentioned address or email id at secretarial.jbma@jbmgroup.com or Registrar and Share Transfer Agent of the Company at their following address by not later than 25th October, 2021 so that your equity shares will not get transferred to the demat account of the IEPF Authority.

MCS Share Transfer Agent Ltd.,

F-65, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi 110 020, Tel: 011 4140 6149, E-mail: helpdeskdelhi@mcsregistrars.com In case you have already encashed the dividend, please ignore this letter.

Thanking you,
Yours Sincerely,
For **JBM Auto Limited**

Sd/-Vivek Gupta Chief Financial Officer & Company Secretary

YES BANK LIMITED Branch Office: Plot No. 0-19 A, Third Floor, Ahlnsha Circle, Ashok Marg, C-Scheme, Jaipur, Rajasthan – 302001 Registered Office: Yes Bank House, Off Western Express Highway, Santacruz East, Mumbal – 400055

PUBLICATION OF NOTICE U/S 13 (2) OF THE SARFAESI ACT

Sr.	Agreement No.	Type of Loan	on their last known addresses but they h Name of Borrowers, co-borrowers, Mortgagors/ Guarantor	O/s. As per 13(2) Notice		0 10 10 • 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
1	AFH002400390351	AFFORDABLE HOME LOAN	(Borrower And Mortgagor) Mrs Priyanka, (Co-Borrower) Vinod Kumar Patni	Rs.1942095.93 (Rupees Nineteen Lakh Fourty Two Thousand Ninety Five and Paise Ninety Three Only) as on26-Apr-21	31-Mar -21	03-May -21	All The Piece And Parcel Of South Part of P. No., D-79, Block-d Parsavnath Narayan City, Village Sukhiya, Rampura Road Sanganer, Jaipur, Rajasthan, 302029
	AFH002400450521 AFH002400375601	AFFORDABLE HOME LOAN AFFORDABLE HOME	(Borrower And Mortgagor) Manish Kumar Toshniwal, (Co-Borrower And Mortgagor) Preeti Manish Toshniwal, (Co- Borrower) Santosh G Toshniwal (Borrower And Mortgagor)	Rs.562505.23 (Rupees Five Lakh SixtyTwo Thousand Five Hundred Five and Paise Twenty Three Only) as on26-Apr-21 Rs.201446.12	31-Mar -21	03-May -21	All The Piece And Parcel Of A 415 4th Floor, Rudraksha-II, Village Shrikishanpura Tehsil Sanganer, Jaipur, Rajasthan, 302029 All The Piece And Parcel Of Flat No. G.
3	AFN002400373001	LOAN	Moolchandani, (Co-Borrower And Mortgagor) Vidya Devi Moolchandani	(Rupees Two Lakh One Thousand Four Hundred Fourty Six and Paise Twelve Only) as on26-Apr-	-21	-21	All the riece has a factor frait to, 1, Ground Floor, B Block, Khasra No 622 & 631 Gram Narsinghpura, Teh Sanganer, Jaipur, Rajasthan, 302029
4	MOR002400188936	MORTGAGE LOAN	(Borrower and Mortgagor) M/s. Triumph Motors A Unit Of Shriya Overseas Pvt Ltd. Through It Directors, (Borrower) Mrs. Ruby Mehra & Others Legal Reprsentative /legal Heirs / Successors In Intrust For And On Behalf Of Late Rajan Mehra, (Co- Borrower), Mrs. Ruby Mehra W/o Late Rajan Mehra	Rs. 67458093.84 (rupees Six crores Seventy Four Lakhs Fifty eight Thousand Ninety three And Paise eighty Four Only) As On 29- may-21	31-Mar -21	04- JUNE-21	All The Piece And Parcel Of Plot No E 137 (c) 1, Road No -5, I.P.I.A. Kota 324001 Rajasthan Admeasuring Area 2143 Sq.mt
	4838890000912/ MOR002400525967	LAP (OVERDRAFT FACILITY) AND MORTGAGE LOAN	(Borrower and Mortgagor) Mr. Rampriya Sharma, (Co- Borrower and Mortgagor), Mrs. Divya Sharma	Rs. 36308024.38 (rupees Three Crores Sixty Three Lakhs Eight Thousand Twenty Four And Palse Thirty Eight Only) As On 04-June-2021	31-Mar -21	04- JUNE-21	All The Piece And Parcel Of Khasra No 112 At Village Khokhawas Main Tonl Road, Tehsil Sanganer Jaipur-302012 Rajasthan Admeasuring Area- 627.97 Sq.mtr
6	MOR002400268134	MORTGAGE LOAN	(Borrower And Mortgagor) Mr. Ranjeet Singh Shekhawat, (Co-Borrower), Mrs. Manju Kanwar	Rs. 21487143.23 (Rupees Two Crore Forteen Lakhs Eighfty Seven Thousand One Hundred Forty Three and Paise Twenty Three Only) as on 29-May-21	31-Mar -21	31-May -21	All The Piece And Parcel Of Plot No 83 (old No 75) Scheme No 25 Shiv Nagar-Jaipur - 30 20 13, Rajasthan Admeasuring Area-191.66 Sq. yards And All The Piece And Parcel Of Plot No 80 (old No 76) Scheme No 25, Shiv Nagar-I, Jaipur-30 20 13, Rajasthan Admeasuring Area-191.66 Sq. yards And All The Piece And Parcel Of Plot No 82 (old No 74), Scheme No 25, Shiv Nagar-I, Jaipur-30 20 13, Rajasthan Admeasuring Area-192.05 Sq. yards
7	MOR002400342892	MORTGAGE LOAN	(Borrower) M/s Fair Deal Through Proprietor Mrs. Jyoti Sharma, (Co-Borrower And Mortgagor) Mrs. Jyoti Sharma, (Co-Borrower And Mortgagor) Mr. Vikram Dutt Sharma, (Co- Borrower) M/s Shree Vinayak Enterprises through Proprietor Mr. Vikram Dutt Sharma, (Co- Borrower) Mr. Vibhor Sharma	Five Lakh Seventeen Thousand Eight	31-Mar -21	31-May -21	All The Piece And Parcel Of Plot No 149 Scheme No 16 Girnar Colony Gandhi Path Vaishali Nagar Jaipur- 302021 Rajasthan. Admeasurin Area- 270.83 Sq.yards.
	MEF037000354652 / 37069700000109	OVER DRAFT AND TERM LOAN	(Borrower) Mr. Natwar Singh Proprietor Of M/s New Choppal Hotel And Restaurant, (Mortgagor And Guarantor) Mrs. Kamod Kanwar	Rs. 12,94,460/- (Rupees Twelve Lakhs Ninety four Thousand Four Hundred Sixty Only/-) As On June 5, 2021	Sept 28, 2020	5-JUNE -21	All The Piece And Parcel Of Plot No 29, Vikas Colony II, Ward No 25, Kasaba Newai, Thesil-Newai, District Tonk, Rajasthan 304021 Admeasuring Area-216.66 Sq.yard. And Hypothecation Of Current Asset And Movable Fix Assets Both Present And Future
9	7966970000312/ MEF079600602702/ MEF056900698046	OVER DRAFT AND TERM LOAN	Mrs. Gayatri W/o Late Deepak Kumar (legal Heir Of Late Deepak Kumar S/o Mr. Kanhaiya Lal Proprietor Of M/s Satyam Enterprises), (Co-Borrower And Mortgagor) Mrs. Sita Bai W/o Mr. Kanhaiya Lal, Mrs. Sita Bai W/o Mr. Kanhaiya Lal (legal Heir Of Late Deepak Kumar S/o Mr. Kanhaiya Lal Proprietor Of M/s Satyam Enterprises And Co-Borrower And Mortgagor)	Rs. 2425288.87/- (Rupees Twenty Four Lacs Twenty Five Thousand Two Hundred Eighty Eight And Paisa Eighty Seven Only/-) As On May27, 2021 & May28, 2021	March 31, 2021	31-May -21	All The Piece And Parcel Of Plot No 33, Khasra No 81, Anand Vihal Extension, Village Gordhanpura, Ramganjmandi, Kota 326519, Rajasthan, Admeasuring Area-1210.3 Sq Ft And Hypothecation Of Movable Current Assets Including Stocks And Inventory Both Present And Future
10	56969700000162	OVERDRAFT	(Borrower) M/s Agrabandhu Enterprises Through Proprietor Mr. Ashish Goyal, (Guarantor) Mrs. Ruchi Garg, (Mortgagor) Mr. Ashish Goyal	Rs 6,52,700/- (rupees Six Lacs fifty Two Thousand seven Hundred Only/-) as on May 31, 2021	JULY 29, 2020	31-May -21	All The Piece And Parcel O'Commercial Shop At Plot No S1-10 Riico Industrial Area Growth Centre Tehsil-Jhalrapatan, District-Jhalawar Rajasthan- 326023, Admeasuring Area:-242.20 Sq.ft. And All The Piece And Parcel O'Commercial Shop At Plot No S1-12 Riico Industrial Area, Growth Centre Tehsil-Jhalrapatan, District-Jhalawar Rajasthan- 326023, Admeasuring Area:-242.20 Sq.ft And Hypothecation Of Movable Current Assets Including Stock And Inventory Both Present And Future
11	AFH039300256794	AFFORDABLE HOME LOAN	(Borrower and Mortgagor) Bhupendra Singh, (Co- Borrower and Mortgagor) Suman Solanki	Rs.430180.93 (Rupees Four Lakh Thirty Thousand One Hundred Eighty and Paise Ninety Three Only) as on 26-Apr-21	31-Mar -21	03-May -21	All The Piece And Parcel Of Flat No 519, Floor No 5 Parshavanath Apartment, Nanta Road Kunhadi Kota, Rajasthan, 324008
12	AFH004100391367	AFFORDABLE HOME LOAN	(Borrower And Mortgagor) Mr. Gainendra Ranga, (Co- borrower And Mortgagor) Mrs. Prem Lata Purohit	Rs. 2780662.88 (Rupees twenty seven Lakhs eighty Thousand six Hundred Sixty Two And Paise eighty Eight Only) as on 29-MAY-21	31-Mar -21	31-May -21	All The Piece And Parcel Of H.no 797 C-Sector 19 Chopasani Housing Board Scheme Jodhpur-342001, Rajasthan Admeasuring Area-90 Sq.mts.
13	AFH004100420620 AFH004100435508	AFFORDABLE HOME LOAN	(Borrower And Mortgagor) Devendra Khubchandani, (Co-borrower And Mortgagor) Mohini Devi, (Co-Borrower) Mr Anii	Rs.1825830.56 (Rupees Eighteen Lakhs Twenty Five Thousand Eight Hundred Thirty and Paise Fifty Six Only) as on 26-Apr-2021	31-Mar -21	07-May -2021	All The Piece And Parcel Of The P.No 48-B (Part of P. No. 48), Kh. No. 118 Tirupati Nagar Yojna, Gram Chopasni Jodhpur, Rajasthan, 342001.
14	HLN002400091617	HOME LOAN	(Borrower And Mortgagor) Mr. Amit Kumar Malu, (Co- Borrower) Mrs. Chanda Devi, (Co-Borrower) Mr. Jugal Kishor Malu	Rs. 1915369.87 (Rupees Nineteen Lakhs fifteen Thousand three Hundred Sixty Nine And Paise eighty Seven Only) as on 29-MAY-21	31-Mar -21	31-May -21	All The Piece And Parcel Of Flat No. F-2 On First Floor In "Prime Rose' Situated At Plot No 24 Ganesh Nagai Niwaru Road Jhotwara Jaipur-302012 Rajasthan, Admeasuring Area-810 Sq.ft.
15	MOR002400097881	MORTGAGE LOAN	(Borrower) Mr.nitesh Agarwal, (Co-Borrower) M/s Amita Gems Through Proprietor Mr. Nitesh Agarwal, (Co-Borrower) Mr. Avinash Agarwal, (Co- Borrower And Mortgagor) Mrs. Govindi Devi Agarwal	Rs. 9928128.94 (Rupees Ninety Nine Lakh Twenty Eight Thousand One Hundred Twenty Eight and Paise Ninety Four Only) as on 29-May-21	31-Mar -21	31-May -21	All The Piece And Parcel Plot No B-72 Sethi Colony Chokri Hawali Shaha Jaipur- 302004 Rajasthan Admeasuring Area-266.66 Sq.yards.
16	2488900001944	LAP (OVERDRAFT FACILITY)	(Borrower) M/s Amita Gems Through Proprietor Mr.nitesh Agarwal, (Co-Borrower) Mr.Nitesh Agarwal, (Co- Borrower) Mr. Avinash Agarwal, (Co-Borrower and Mortgagor) Mrs. Govindi Devi Agarwal	Rs. 6901776.06 (Rupees Sixty Nine Lakh One Thousand Seven Hundred Seventy Six and Paise Six Only) as on 04-June-21	31-Mar -21	03-May -21	All The Piece And Parcel Plot No B-72 Sethi Colony Chokri Hawali Shahai Jaipur- 302004 Rajasthan Admeasuring Area-266.66 Sq.yards.
17	641LA40202060001/ 64184600000377/ 64184600000212	OVERDRAFT/TERM LOAN/ WORKING CAPITAL	(Borrower) M/s Jai Hauman Febric Through Proprietor Mr. Vikas Singhal, (Guarantor) Mr. Vikas Singhal, (Guarantor), Sonia Agarwal, (Mortgagor And Guarantor) Kiran Devi Agarwal	Rs. 11707204.61 /- (rupees One Crores Seventeen Lakhs Seven Thousand Two Hundred Four And Paisa Sixty One Only) as on June 9,	February 28, 2021	10-June -2021	All The Piece And Parcel Of The Plot No 460 Chak No 02, Khasra No 1441 Janta Colony, District-Pali Rajasthan - 306401,. Admeasuring Area-840 Sq.ft. And Hypothecation Of The Current Asset And Movable Fix Assets Both Present

The above borrowers and for their guarantor(s)/mortgagor(s) (whenever applicable) are hereby called upon to make payment of outstanding amount within 60 days from the date of publication of this notice, failing which further steps will be taken after expiry of said 60 days under sub-section (4) of Section 13 of SARFAESI Act.Furthermore, this is to bring to your attention that under Section 13 (8) of the SARFAESI Act, in case our dues together with all costs, charges and expenses incurred by us are tendered at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured asset shall not be sold or transferred by us, and no further step shall be taken by us for transfer or sale of that secured asset.

s/d -Authorized Office Dated:15-July-2021



SONATA SOFTWARE LIMITED

(CIN No.L72200MH1994PLC082110) Regd. Office: 208, T V Industrial Estate, 2nd Floor, Nega: Office: 206, 1 V midstrial state, 2 - Floor, 5 K Ahire Marg, Worli, Mumbai - 400 030.

Corporate Office: 1/4, APS Trust Building, Bull Temple Road, N.R.Colony, Bengaluru - 560 0f Tel: +91 -80-67781999, Fax: +91-80-26610972, Website: www.sonata-software.com Email Id: info@sonata-software.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the 4th day of August, 2021, to consider and approve, inter-alia, the un-audited financial results (Standalone and Consolidated) for the quarter ended 30th June, 2021.

The Notice is also available on the Company's website www.sonata-software.com and on the website of the stock exchanges where the Company's shares are listed viz.: www.bseindia.com and www.nseindia.com

For **SONATA SOFTWARE LIMITED**

Mangal Kulkarni **Company Secretary, Compliance**

Place : Bengaluru Date: 14th July, 2021 Officer and Head-Legal



BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED

(for the attention of Equity Shareholders of the Company) Sub: Transfer of Equity Shares of the company to Investor Edu Protection Fund (IEPF) Authority

NOTICE

Pursuant to IEPF Rules, 2016, as amended, Notice is hereby given to the shareholders who have not encashed any dividend declared by the Company starting from 2013-14 (Final Dividend) onwards, that action will be initiated to transfer their underlying shares to IEPF, in case they do not claim? encash the dividend by 19" October, 2021. The names of the shareholders whose shares are due for transfer, along with folio number or DP ID/ Client ID are available on the website of the company at https://www.bhel.com/index.php/shareholders-whose-shares-are-llable-be-transferred. Adhering to the various requirements set out in the Rules, the company has also communicated individually the concerned shareholders of the same, whose shares are liable to be transferred to IEPF, at their latest available

Shareholders are advised to encash unclaimed dividend by above mentioned date by sending a formal letter alongwith requisite documents to our Registrar & Transfe Agent, M/s Alankit Assignments Limited. In case the concerned shareholder do no encash dividend by above mentioned date, the Company shall be compelled to transfer the unclaimed dividend for 2013-14 (Final Dividend) alongwith the underlying shares held by them to IEPF, without any further notice, by following the due process as enumerated in the aforesaid rules.

- Both the unclaimed dividends and the shares transferred to IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by the shareholder from IEPF Authority after following the procedure prescribed
- In case the shareholders have any queries on the subject matter, they
 may contact the Company's Registrar and Transfer Agents at M/s Alankit
 Assignments Limited., Shri Ramesh Khatua, 4E/2 Alankit House, Jhandewalan
 Extension, New Delhi-110055 Tel.: 011-42541234; Fax: 011-23552001;
 Email: rta@alankit.com Website: www.alankit.com
- 3) Shareholders may please note that:-
- Shareholders holding shares in Demat form may contact the respective Depository Participants (D.P.) to avail the NECS / ECS facility or to update Address/Bank Details/NECS/ECS Mandate, if any.
- Shareholders holding shares in physical form may contact our RTA for any updation in address / Bank Details, NECS/ECS Mandate.
- c) To support the Company's Green Initiative the shareholders are requested to register their email id's with their D.P. (in case of shares in demat form) and with our RTA at rta@alankit.com (in case of shares in physical form)

For Bharat Heavy Electricals Limited

Place : New Delhi Date : 14.07.2021

Rajeev Kalra COMPANY SECRETARY

बैंक ऑफ़ इंडिया BO

Sr. Name of Director / Guarantor / Partner

BANK OF INDIA HEAD OFFICE, RECOVERY DEPARTMENT

PUBLIC NOTIFICATION Bankis in the process of declaringthe following Borrower and it's

Directors/Guarantors/Partners as Wilful Defaulter, It has issuedNotice for intimation of Bank's order dated 19.05.2021 containing the reasons in terms of RBI guidelines so as to enable them to either repay the contractual dues or to make their submission against declaration as Wilful Defaulter. TheseNotices were sent by Speed Post/Registered Post at available postal address and some of them have been returned to us as un-delivered for one or other reason. The details of the NP/ borrowers and its Directors/Guarantors/Partners areas under:-

No.	of Defaulting Borrower Company	71441000
1.	Ultra Home Construction Private Limited (Borrower Company)	307, 3Rd Floor, Nipun Towers Community Centre, Karkardooma, Delhi-110092
2.	Anil Kumar Sharma (Director&Guarantor&Promoter) Ultra Home Construction Private Limited	83, AGCR Enclave, Delhi - 110092
3.	Shiv Priya (Director&Guarantor& Promoter) Ultra Home Construction Private Limited	BP-801, Amrapali Exotica, Plot No. E08, Near Ramagya School, Sector – 50, Noida - 201301
4.	Ajay Kumar (Director&Guarantor&Promoter) Ultra Home Construction Private Limited	A-302, Plot No. 11/2, AmrapaliVaishali, Sector – 3, Vaishali, Ghaziabad – 201 010
5.	Madan Mohan Sharma (Guarantor& Promoter) Ultra Home Construction Private Limited	83, AGCR Enclave, Delhi - 110092
NI.		

Now, by means of publication of this notice, we once again advise all the above mentioned persons to forthwith approach our Branch to collect the notice and respond within 7 days of this publication. In case we don't receive any response within 7 days, it will be treated and deemed that notice has been duly served and they don't have anything to defend and Bank shall continue to proceed further in this matter.

Assistant General Manage Recovery Department, H O

JBM AUTO LIMITED

(CIN: L74899DL1996PLC083073) Read, Office:601, Hemkunt Chambers 89, Nehru Place, New Delhi - 110019 E-mail:secretarial.jbma@jbmgroup.com Website: www.jbmgroup.com Ph. 011-26427104-06; Fax: 011-26427100



NOTICE <u>Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protec</u>

Fund (IEPF) Authority This Notice is published pursuant to the provisions of sub section (6) of section 124 of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 including any nendment and re-enactment thereof.

To comply with the aforesaid provisions, the Company shall transfer all shares, in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more from financial year 2013-14 shall be transferred by the Company in the name of Investor Education and Protection Fund(IEPF) as set up by the Central Government by the due date i.e. 29th October, 2021 as per Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 including any amendment and re-enactment thereof.

Accordingly, the Company has communicated all the concerned shareholders through speed post at their address registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent Limited (RTA) records, whose shares are liable to be transferred to relevant Account of IEPF Authority. The Company has also uploaded on its website www.jbmgroup.com full details containing names of such shareholders and their folio number or DP ID- Client ID with their shares liable to be transferred to the IEPF Authority.

The shareholders may please note that after the above shares which will be credited in the account of the IEPF Authority then such shares will not be available to the shareholder for sale or transfer or dealt with in any manner except as per the process and provisions as prescribed in the aforementioned rules of section 124(6) of the Companies Act, 2013.

Please also note that, both the unclaimed dividends and corresponding shares including all benefits accruing on such shares, if any, once transferred to IEPF Authority can be claimed back from IEPF authority after following the procedu prescribed in the aforesaid rules.

The shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority, may note that Company would issue the duplicate share certificate(s) in lieu of original share certificate(s) held by the shareholders. After issue of duplicate share certificates, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificates into dema form and transfer in favour of Authority. In respect of shares held in demat form, the Company shall inform the depository by way of corporate action, where the shareholders have their accounts for transfer in favour of the Authority.

The concerned shareholders are requested to claim unclaimed dividend for the financial year 2013-14 and onwards by making an application to the Company/RTA by 25" October, 2021, failing which their shares shall be transferred to IEPF Authority. For claiming the unclaimed dividend or in case you need any information/clarification, please write to MCS Share Transfer Agent Limited. Registrar & Share Transfer Agent of the Company or email at ecretarial.jbma@jbmgroup.com

For JBM Auto Limited

Date: 13th July, 2021 Place: New Delhi

(Vivek Gupta) Chief Financial Officer & Company Secretary

इंडियन बैक



🛕 इलाहाबाद

ALLAHABAD BRANCH OFFICE : J-13/33, Patel Market, Rajouri Garden, West Delhi-110 027 . No. (011) 25193097, Fax No. (011) 25430415 e-mail : rajourigarden@indianbank.

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)
[rule- 8(1)] APPENDIX-IV WHEREAS, The undersigned being the authorised officer of the Indian Bank, under the

ritisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interes Second) [Act] 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with [rule 3] of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice Dated 26.03.2021 calling upon the borrower M/s Amrose Singapore Pte. Ltd. to repay the amount mentioned in the notice being US\$ 33,707,074.85 (in Words United States Dollars Thirty Three Million Seven Hundred and Seven Thousand Seventy Four and cents Eighty Five only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the PUBLIC IN GENERAL that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act ead with rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on this the 12th day of July of the year 2021.

The borrower in particular and the PUBLIC IN GENERAL is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Indian Bank for an amount US\$ 33,707,074.85 (in Words United States Dollars Thirty Three Million Seven Hundred and Seven Thousand Seventy Four and cents Eighty Five only) and interest thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets

Description of Immovable Property:

All that Part and Parcel of the property at Commercial Flat No. 409, 4**Fir., Admn. Approximately 700.13 sq. ft., i. e. 65.065 sq. mtrs., Krishna Apra Business Square, Plot No. D-4, 5 & 6, Wazirpur Dist. Centre, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110 034, Bounded :-On the East : Open / Other Tower of Project On the West : Common Passage / Unit No. 401

 On the South: Unit No. 408 / Road. Date: 12.07.2021

Place: Rajouri Garden, Delhi

uthorised Officer For Indian Bank

1. Amrose Singapore PTE Ltd. (Borrower): Address (Singapore): 3, Shentor Way, Shenton House #14-01, Singapore 068805. Address (India): Plot No. 69, Sector No. 2. Near St. Joseph Hospital, Gandhidham, Dist. Kutch, State : Guiarat, India.

- 2. Mr. Mukesh Gupta (Guarantor / Mortgagor): Address (Singapore): 26, Keppel Bay Drive #04-38, Caribbean at Keppel Bay, Singapore-098648. Address (India): Plot No. 69, Sector No. 2, Nr. St. Joseph Hospital, Gandhidham, Dist. Kutch, State. Gujarat, India.
- 3. Mrs. Gupta Anju Mukeshkumar (Guarantor) : Address (Singapore) : 26 Keppel Bay Drive #04-38, Caribbean at Keppel Bay, Singapore-098648. Address (India): Plot No. 69, Sector No. 2, Nr. St. Joseph Hospital, Gandhidham, Dist. Kutch, State:
- Guiarat India 4. Ms. Gupta Shivani Mukeshkumar (Guarantor) : Address (Singapore) : 26
- Keppel Bay Drive #04-38, Caribbean at Keppel Bay, Singapore-098648. Address (India) : Plot No. 69, Sector No. 2, Near St. Joseph Hospital, Gandhidham, Dist. Kutch, State

Registered Office: Technopolis, 7th Floor, Plot No. 4 Block BP, Sector V, Salt Lake, Kolkata 700 091 CIN No.: U65910WB1993FLC060810 Branch office: Delhi



POSSESSION NOTICE [Rule-8(1)]

Whereas the undersigned being the authorized officer of L&T Finance Limited (Formerly known as L&T Housing Finance has merged with L&T Finance Limited ('LTF') w.e.f. 12th April, 2021)under the Securitization And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 ('Act'), and in exercise of powers conferred by Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ('Rules'), had issued a demand notice calling upon Borrower, Co-Borrower and Guarantors to repay the amount mentioned in the demand notice appended below within 60 days from the date of receipt of the said notice together with further interest and other charges from the date of demand Notice till the date of payment and/or realization. The Borrower/Co-Borrowers/Guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Co-Borrowers/Guarantors and public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein under in exercise of powers conferred on him/her under Section 13 of the said Act read with rule 8 of the said Rules on this notice.

Loan Borrower/s/			Demand Notice		Date and Type of	
Account Number	Co-borrower/s & Guarantors Name	Description of the Mortgaged Properties		Outstanding Amount (₹)	Possession Taken	
and	Thakran Jewellers Neeraj Kumar Sathiri Neeraj Kumar	All the piece and parcel of the Flat No.628, Pocket 1, Group II, Type B, Sector B-4, Narela, Delhi 110040		Rs. 4803466.12/- As On 05/04/2021	12.07.2021 Symbolic	

The borrowers and/or co-borrower and/or mortgagor in particular and public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing in the property would be subject to the charge of LTF for the Amount of Rs 4803466.12 /- (Rupees Forty Eight Lakhs Three Thousand Four Hundred Sixty Six and Paise

Twelve Only) together with further interest and other charges from the date of demand notice till the date of payment/realization.

Authorized Officer

For YES BANK Limited

Date: 15.07.2021





















Place: Rajasthan

































हस्ता०/

कम्पनी सचिव



बैंक ऑफ बड़ौदा, जानकीपुरी बी 1 शाखा, बी-1/31 कम्युनिटी सेन्टर, जानकीपुरी, नई दिल्ली-1 10058 फोन : 91-011-25591648, 25542777 ई—मेल : janakp@bankofbaroda.com

संदर्भ सं. : BOB/JANAKP/SARFAESI/05-4/2021-22 दिनांक : 31-05-20201 उधारकर्ता को सूचना (सरफेसी अधिनियम 2002, की धारा 13 की उपधारा (2) के तहत)

श्री मा. अजहर पुत्र सलीम खान टी 5/1206, निराला एस्टेट टेकझोन IV, ग्रेटर नोएडा वेस्ट बिसराख मंदिर के पास, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश—20 1308

श्री मो. अजहर पुत्र सलीम खान सहायक प्रबंधक ट्रेंड्स सेल्स रोका बाथरूम प्रोव लिमिटेड टॉवर-बीलमवन सं-10 डीएलएफ साईबर सिटी, गुरुग्राम्-122002 श्रीमो. अजहर ३ए/३३७, दूसरातल, सेक्टर–३, ब्लॉकए, वैशाली गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश–201010 पियमहोदय/यों

अय नहास्य/या संदर्भ : बी 1 जनकपुरी शाखा के साथ क्रेडिट सुविघा 1. हम अपने पत्र संख्या/खुदरा 00000366667-एलएमएस दिनांकित 24.09.2020 संदेश खंड का संदर्भ विभिन्न ऋण सुविघाओं की स्वीकृति और स्वीकृति की शर्तों के तहता उपरोक्त के अनुसार आपने प्रत्यूमूत प्रदान करूने के बाद उसी के लिए, ऋण सुविधाओं का लाम उठाया और उनका उपयोग शुरू किया है, जैसा कि इसके बाद कहा गया है। ऋण खाते में वर्तमान बकाया और इस

सुविधा का प्रकार और प्ररूप	सीमा (रूपये में)	ब्याज की दर	दिनांक 30/04/2021 तक ककाया शेष (30/04/2021 तक क्याज सहित और मविष्य का ब्याज दिनांक 01.06.2021 से, लामत प्रभार और खर्च के साम)	प्रतिभूतियों का संक्षिप्त विवरण के साथ प्रतिभूति अनुबंध
ऑटो ऋण 1287060 10001914	रुपये 30,00,000/– (रुपये तीस लाख मात्र)	(8.80%) प्रति वर्ष जोकी आरबीआई रेपोरेट ज जमा (4.00% + मार्कअप 3.00% का + स्ट्रेटिजिक किश्त 0.25% म 1.80% का क्रेडिट स्प्रीड और 0.05% जोखिम किश्त	रुपये 30,09,598.00/– (रुपये तीस लाख नौ हजार पांच सौ अड्डानबे मात्र)	दृष्टिकंषक होंबाई दक्सन सीआरखीआई 4डब्ल्यूडी ऑटो जीएलएस होंडाई दक्सन सीआरखीआई 4डब्ल्यूडी ऑटो जीएलएस का दृष्टिबंधक दिलेख हिनांकित 24.09,2020 धारक पंजीकरण सं. UP14EN0123 वेचीस सं. MALJ381ASL M015834 इंजन सं. 1241ALU12548 मॉडल : होंडाई मोटल इंडिया लिमिटेड लंडाई टक्सन सीआरडीआई 4डब्ल्यूडी अटि जीएलएस निर्माण: डोंडाई मोटल इंडिया लिमिटेड रंग: स्टेपी लाईट के नाम मं-नो. अजहर

2. जेसा कि आप जानते हैं, आपने दिनांक 30.04.2021 समाप्त हो गए ऋण/तिमाही के लिए उपरोच ब्याज के बकाया के गुगतान में चूक की है। आपने दिनांक 30.04.2021 और उसके बाद की मांग ऋणों की किश्तों के गुगतान में मी चूक की है।

 आपके द्वारा की गई चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को भारतीय रिजर्व बँक के निर्देशों औ ब. आन्य आप अग पड़ पूर्व के पारणानप्तरण, जानक ऋण खात का नारताब त्रिका नकिया निवसी आप दिशा–निवेदों के अनुसार दिनांक 30.04.2021 को गैस्-निष्यादित परिसंपत्ति वर्गीकृत किया गया है। हमारे बार–बार अनुरोधों और मांगों के बावजूद आपने अतिदेय ऋण और उस पर ब्याज सहित चुकाया नहीं है। 4. क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में अपनी देनदारियों को पूरा करने में अपनी असमर्थता के संबंध में विधि कपर पैरा 1 में उल्लेखित विभिन्न प्रतिभूतियाँ द्वारा प्रत्याभूत, और आपके खाते का एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकरण के कारण, हम एतद् द्वारा आपको वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण ए पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन् अधिनियम, 2002 घारा 13 की उप-धारा (2) के तृहत सूचना देत् हैं, और आप से आहवान किया गया है कि आप रुपये 30,09,598.00 (रुपये तीस लांख नौ हज अञ्चानबे मात्र) भविष्य के ब्याज सहित (दिनांक 01.05.2021 से लागू) और ऊपर पैरा 1 में बताया गया है अड्डानंब नात्र) मार्थ्य के ब्याज साहत (स्ताबिक) 1.03.202 में तह लागू और अपरे पर्शे । में बाता वार्या है अन्य शुल्कों का, इस सूचना की दिनांक से 60 दिनों के भीतर पूर्ण रूप में मुगतान करें और बैंक को अपनी देनदारियों का निवंहन करों हम आपको यह सूचना भी देते हैं कि मुगतान की दिनांक तक ब्याज के साथ उपरोक्त राशि का मुगतान विफल होने पर हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत समी या किसी मी अधिकार का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे, तो कृपया ध्यान रखें।

 कृपय । ध्यान दें कि, इसके लिए पूर्ण भुगतान तक प्रत्येक क्रेडिट सुविधा पर ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट दरों प ब्याज पाम होता रहेगा

6. हम आपका घ्यान उक्त अधिनियम की घारा 13 की उप—घारा 13 पर आमंत्रित करते हैं जिसके संदर्भ में आपको उकरप पैरा–1 में वर्णित किसी भी प्रत्याभूत संपत्ति को बिक्री, पड़ा या अन्यथा (व्यापार के साघारण प्रकार के अलावा) हमारी पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना स्थानांतरित करने से रोक दिया जाता है। हम से भी बता वें कि उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की घारा 13(13) अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है।

7. हम आगे आपका घ्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 के उप अनुभाग (8) के संदर्भ में आकृषित करते है, जहां यदि आप बैंक द्वारा किए गए सभी लागतों के साथ बकाया राशि, शुल्क और व्यय सार्वजनिक नीलामी/आमंत्रित कोटेशन/निविदा/निजी संधि के लिए सूचना के प्रकाशन कि दिनांक से पहले किसी मी समय आपके द्वारा प्रस्तुत की जाती है तो प्रत्याभृत परिसंपत्तियों को छुड़ा सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त सूचना के प्रकाशन के बाद, प्रत्याभृत परिसंपत्तियों को छुड़ाने का आपका अधिकार उपलब्ध नहीं

8 . कृपया ध्यान दें कि यह मांग सूचना बिना किसी पूर्वाग्रह के है और इसे किसी भी अन्य अधिकरों या निदान के तहत नहीं मान जाएगा जो हमें प्राप्त हो सकते हैं , असीमित सीमा के , हमारे राशि के संबंध में आगे की मांग करने का अधिकार सहित।

मुख्य प्रबंधक और प्राधिकृत अधिकारी



बँक ऑफ बड़ौदा, जानकीपुरी बी1 शाखा, बी-1/31 कम्युनिटी सेन्टर, जानकीपुरी, नई दिल्ली-110058 फोन : 91-011-25591648, 25542777 ई-मेल : janakp@bankofbaroda.com

दिनांक : 31-05-20201

उधारकर्ता को सूचना (सरफैसी अधिनियम 2002, की धारा 13 की उपधारा (2) के तहत)

त्रात, श्री शाहबुद्दीन खान, खान इंटीरियर डेक्रो्रेटर पुत्र श्री लतीफ, मकान सं. 408, ए4 सिगनेश्चर ग्लोबल सोलेरा, सेक्टर 107, गुरुग्राम, हरियाणा-122001

संदर्भ : बी 1 जनकपुरी शाखा के साथ क्रेडिट सुविधा

1. हम अपने पत्र संख्या/खुदरा 00000448030—एलएमएस दिनांकित 07.11.2020 संदेश खंड का संदर्भ विमिन्न ऋण सुविधाओं की स्वीकृति और स्वीकृति की शर्तों के तहता उपरोक्त के अनुसार आपने प्रत्याभूत प्रदान करने के बाद उसी के लिए, ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया और उनका उपयोग शुरू किया है, जैसा कि इसके बाद कहा गया है। ऋण खाते में वर्तमान बकाया और इस तरह के दायित्व के लिए बनाए गए प्रत्याभूत हित इस प्रकार हैं:

सुविधा का प्रकार और प्ररूप	सीमा (रूपये में)	ब्याज की दर	बकाया शेष (30/04/2021 तक व्याज सहित और मंदिष्य का ब्याज दिनांक 01.05.2021 से, सामत प्रमार और खर्च के साम)	जाराजाराचा का सावान्स विवर्
ऑटो ऋण 1287060 0001939		(7.70%) प्रति वर्ष जोकी आरबीआई रेपोरेट का जमा (4.00% + मार्कअप 2.85% का + स्ट्रेटेजिक किश्त 0.25% + 0.80% का क्रेडिट स्प्रीड	रुपये 799081.00/– (रुपये सात लाख निन्यानबे हजार इक्यासी मात्र)	मारूती बलेगो जिटा पेट्रोल का दृष्टियंषक, दृष्टियं बं धक विलं ख दिनां कि ह 07.11.2020 मारूती मारूती बलेगे जिटा पेट्रोल का धारक पंजीकरण सं HR 26 EL 3103 च बीस सं MBHEWB22SLK554991 मीडल मारूती बलेगे जल्मा गिर्मेल मारूती बलेगे जल्मा गिर्मेल मारूती बलेगे जल्मा गिर्मेल मीडल मारूती बलेगे जिटा पेट्रोल बलेगे जल्मा गिर्मेल मीडल मारूती बलेगे जिटा पेट्रोल बलेगे जल्मा गारूती चुजूकी इंडिया लिमिटेड सं मार्में मारूती होती होडिया लिमिटेड सं मार्में मारूती होती होडिया लिमिटेड के मार्में मारूती होती होडिया लिमिटेड के मार्में मारूती होडिया लिमिटेड
				हो गए ऋण/तिमाही के लिए उपरोक्त

5 की है। आपने दिनांक 30.04.2021 और उसके बाद की मांग ऋणों व किश्तों के भगतान में भी चक की है

किस्तों के मुगतान में भी चूक की है।

3. आपके द्वारा की गई चूक के पिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और दिशा—निर्देशों के अनुसार दिनांक 30,04,2021 को गैर—निष्पादित परिसंपत्ति वर्गीकृत किया गया है। हमारे बार—बार अनुरोधों और मांगों के बावजूद आपने अतिदेय ऋण और उस पर ब्याज सहित चुकाया नहीं है।

4. केडिट सुविधाओं के संबंध में अपनी देनदारियों को पूरा करने में अपनी असमर्थता के संबंध में विधिवत उपर पैरा 1 में उल्लेखित विभिन्न प्रतिभृतियों हमार प्रत्याभूत, और आपके खाते का एक गैर—निष्पादित एसिंपत्ति के रूप में वर्गीकरण के कारण, हम एतद ब्वारा आपको वितीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 धारा 13 की उप—धारा (2) के तहत सूचना देते हैं, और आप से आहवान किया गया है कि आप रुपये 79908 1.00 (रुपये सात लाख निन्यान बे हजा हैं, और आप स आहवान किया गया है कि आप रुपय 799081.00 (रुपय सात लाखा मन्त्र्यान हजा। इक्यासी मात्र) भविष्य के ब्याज सहित (दिनांक 01.05.2021 से लागू) और उपपर पैरा 1 में बताया गया है अन्य शुक्कों का, इस सूचना की दिनांक से 60 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से मुगतान करें और बैंक को अपनी देनदारियों का निवंहन करें। हम आपको यह सूचना भी देते हैं कि मुगतान की दिनांक तक ब्याज के साथ उपरोक्त शारी कू मुगतान विफल होने पर हम उक्त अधिनयम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे, तो कृपया ध्यान रखें। 5. कृपया । ध्यान दें कि , इसके लिए पूर्ण ग्रुगतान तक प्रत्येक क्रेडिट सुविधा पर ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट वरों पर

6. हम आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा 13 पर आमंत्रित करते हैं जिसके संदर्भ में आपको उत्पर पैरा—1 में वर्णित किसी भी प्रत्याभूत संपत्ति को बिक्री, पड़ा या अन्यया (व्यापार के साघारण प्रकार के अलावा) हमारी पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना स्थानांतरित करने से रोक दिया जाता है। हम से भी बता दें कि उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 13(13) अधिनिय धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है।

घारा 28 के तहत देडनाय अपराध हा 7. हम आगे आपका घ्यान उक्त अधिनियम की घारा 13 के उप अनुमाग (8) के संदर्भ में आकृषित करते हैं, जहां यदि आप बैंक द्वारा किए गए सभी लागतों के साथ बकाया राशि, शुक्क और व्यय सार्वजनिक नीलामी/आगंत्रित कोटेशन/निविदा/निजी संधि के लिए सूचना के प्रकाशन कि दिनांक से पहले किसी भी समय आपके द्वारा प्रस्तुत की जाती है तो प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को छुड़ा सकते हैं। कृपया घ्यान दें कि उपरोक्त सूचना के प्रकाशन के बाद, प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को छुड़ाने का आपका अधिकार उपलब्ध नहीं

8. कुपया घ्यान दें कि यह मांग सूचना बिना किसी पूर्वाग्रह के है और इसे किसी भी अन्य अधिकरों या निदा-के तहत नहीं मान जाएगा जो हमें प्राप्त हो सकते हैं, असीमित सीमा के , हमारे राशि के संबंध में आगे की मांर

एल&टी फायनांस लिमिटेड

शाखा कार्यालयः जयपुर, राजस्थान

पंजीकृत कार्यालय: टेक्नोपोलिज़, 7वीं मंजिल, प्लॉट नं.4

ब्लॉक बीपी, सेक्टर 5. सॉल्ट लेक, कोलकाता 700091 सीआईएन नं.: U65910WB1993FLC060810

मुख्य प्रबंधक और प्राधिकृत अधिकारी



र्वैंक ऑफ बड़ौदा, जानकीपुरी बी 1 शाखा, बी–1/31 कम्युनिटी सेन्टर, जानकीपुरी, नई दिल्ली–110058 फोन : 91–011–25591648, 25542777 ई–मेल : janakp@bankofbaroda.com

संदर्भ सं. : BOB/JANAKP/SARFAESI/05-2/2021-22 दिनांक: 31-05-20201

(सरफैसी अधिनियम 2002, की घारा 13 की उपघारा (2) के तहत)

्री राजेश पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, फ्लैट सं. 349, पॉकेट—2, सेक्टर—ए10, डीडीए एलआईजी फ्लैट्स नरेला नॉर्थ वेस्ट दिल्ली—110040 राजेश नेसर्स राजेश इंटरप्राइसेस मकान सं. 186, ब्लॉक—एफ, पॉकोट—5, सेक्टर—16 रोहिणी, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली दिल्ली—110085

प्रेयमहोदय/यों संदर्भ : बी 1 जनकपुरी शाखा के साथ क्रेडिट सविधा

सदम : बा 1 जनकपुरा शाखा के साथ क्राइट सुविधा 1. हम अपने पत्र संख्या/खुदरा 0000296488—एलएमएस दिनांकित 23.06.2020 संदेश खंड का संदर्भ विभिन्न ऋण सुविधाओं की स्वीकृति और स्वीकृति की शतों के तहता उपरोक्त के अनुसार आपने प्रत्याभूत प्रदान करने के बाद उसी के लिए, ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया और उनका उपयोग शुरू किया है, जैसा कि इसके बाद कहा गया है। ऋण खाते में वर्तमान बकाया और इस तरह के दायित्व के लिए बनाए गए

सुविधा का प्रकार और प्ररूप	सीमा (रूपये में)	ब्याज की दर	बकाया केन (30/04/2021 तस बकाया केन (30/04/2021 तस ब्याज सहित और मशिष्य का ब्याज दिनांक 01,08,2021 से, लाग्त प्रमार और सर्च के साम)	त्रारानाताकारावाना विवरण
ऑटो ऋण 1287060 0001878	/ कार्ता जेवर	(7.65%) प्रति वर्ष जोकी आरबीआई रेपोरंट का जमा (4.00% + मार्केअप 2.85% का + स्ट्रेटिजिक किस्त 0.25% + 0.50% का क्रेडिट स्प्रीड और 0.05% जोखिम किस चूक की विनांक से 2% प्रतिवर्ष दण्डात्मक ब्याज	रूपये 1328187.00/— (रूपये तेरह लाख छब्बीस हजार एक सौ सड़हठ मात्र)	दृष्टिबंघक होंडाई मोटर इंडिया तिमिटे क्रेटा 1.5 सीआरडीआई एमटी इंएक्ट दृष्टिन बंघक विलेख दिनां कि 23.08.2020 का वाहन होंडाई मो. इंडिया लिमिटेड क्रेटा 1.5 सीआरडीआ एमटी इंएक्स, धारक पंजीकरण र क्वीससं MALPA813LLM013026 इंजनसं : D4FALM997154 मोडल : होंडाई मोटर इंडिया लिमिटेड क्रेटा 1.5 सीआरडीआई एमटी इंप्लिमिटेड क्रेटा 1.5 सीआरडीआई एमटी इंप्लिमिटेड ऐमा डॉडाई मोटर इंडिया लिमिटेड रंग: टायफून सिल्वर राजेश के नाम में

2. जैसा कि आप जानते हैं, आपने दिनांक 30.04.2021 समाप्त हो गए ऋण/तिमाही के लिए उपरोक्त ब्याज के बकाया के मुगतान में चूक की है। आपने दिनांक 30.04.2021 और उसके बाद की मांग ऋणों की किश्तों के मुगतान में मी चूक की है।

3. आपके द्वारा की गई चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और 3. आपक द्वारा का गई चूक क पारणां मध्यर्थ, आपक ऋण खात का भारताय एखव बक्र का नंदशा आर दिशा—निर्देशों के अनुसार दिनांक 30.04.2021 को गैर—निष्पादित परिसंपत्ति वर्गीकृत किया गया है। हमारे बार—बार अनुरोधों और मांगों के बावजूद आपने अतिदेय ऋण और उस पर ब्याज सहित चुकाया नहीं है।

4. क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में अपनी देनदारियों को पूरा करने में अपनी असमर्थता के संबंध में विधिवत ऊपर पैरा 1 में उल्लेखित विभिन्न प्रतिभूतियों द्वारा प्रत्याभूत, और आपके खाते का एक गैर—निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकरण के कारण, हम एतद द्वारा आपको वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 धारा 13 की उप—धारा (2) के तहत सूचना देते हैं और आप से अनुवाद किया प्राप्त है कि अग्र कार्य 1206 धार 1326 धार 200 आपने वेचन वाल स्वर्तिय स्वरापार है कि अग्र कार्य से स्वराप स्वर्तिय स्वरापार है कि अग्र कार्य 1236 धार 200 आपने वेचन वाल स्वर्तिय स्वरापार है कि पुनोनेमांण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 धारा 13 की उप-धारा (2) के तहत सूचना देते हैं, और आप से आहवान किया गया है कि आप रुपये 1326167.00 (रुपये तेरह लाख छब्बीस हजार एक सी सङ्कर मात्र) मिक्स के ब्याज सहित (दिनांक 01.05.2021 से लागू) और ऊपर पैरा 1 में बताया गया है अन्य शुल्कों का, इस सूचना की दिनांक से 60 दिनों के मीतर पूर्ण रूप से मुगतान करें और बैंक को अपनी देनदाश्यों का निवंहन करें। इन आपको यह सूचना भी देते हैं कि मुगतान की दिनांक तक ब्याज के साथ उपरोक्त राशि का मुगतान फिल्क होने पर हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे, तो कृपया ध्यान रखें।

5. कृपया । ध्यान दें कि, इसके लिए पूर्ण भुगतान तक प्रत्येक क्रेडिट सुविधा पर ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट दरों पर

86. इस आपका ध्यान उक्त अधिनियम की घारा 13 की उप—धारा 13 पर आमंत्रित करते हैं जिसके संदर्भ में आपको ऊपर पैरा—1 में वर्णित किसी भी प्रत्याभूत संपत्ति को बिक्री, पट्टा या अन्यथा (व्यापार के साधारण प्रकार के अलावा) हमारी पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना स्थानांतरित करने से रोक दिया जाता है। हम से भी बता दें कि उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 13(13) अधिनियम की धारा २९ के तहत दंडनीय अपराध है।

धारा 29 के तहत दडनाय अपराध हा 7. हम आगे आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 के उप अनुभाग (8) के संदर्भ में आकृषित करते है, जहां यदि आप बैंक द्वारा किए गए सभी लागतों के साथ बकाया राशि, शुल्क और व्यय सार्वजनिक नीलामी/आमंत्रित कोटेशन/निविदा/निजी संधि के लिए सूचना के प्रकाशन कि दिनांक से पहले किसी भी समय आपके द्वारा प्रस्तुत की जाती है तो प्रत्यामृत परिसंपत्तियों को छुड़ा सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त सूचना के प्रकाशन के बाद, प्रत्यामृत परिसंपत्तियों को छुड़ाने का आपका अधिकार उपलब्ध नहीं

8- कृपया ध्यान दें कि यह मांग सूचना बिना किसी पूर्वाग़ह के है और इसे किसी भी अन्य अधिकरों या निदान के तहत नहीं मान जाएगा जो हमें प्राप्त हो सकते हैं , असीमित सीमा के , हमारे राशि के संबंध में आगे की मांग करने का अधिकार सहिता

मुख्य प्रबंधक और प्राधिकृत अधिकारी

यूको बैंक 🖗 UCO BANK

आस्ति प्रबन्धन शास्त्रा-5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-11000 दूरभाष : 011-23753278 ; फैक्स : 011-23721345 ई-मेल : newamb@ucobank.co.in

प्रपत्र ख [नियम 7(1)]

माँग सचना का प्रपत्र

[ऋणशोधन अक्षमता तथा दिवालिया (कॉर्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत जमानतियों की . ऋणशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया हेत न्यायक्षेत्र प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 के नियम 7(1) के तहत_ी

तिथि : 09.07.202 सेवा में श्री दीपक सूरी एवं श्रीमती नीता सूरी, निवासी ए-187, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110025 को यको बैंक, आस्ति प्रबन्धन शाखा, भतल, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 से। विषय : संहिता के तहत मैसर्स मोडर बेयर इंडिया लिमिटेड से बकाया चूक में अप्रदत्त ऋण के परिप्रेक्ष्

में मांग सचना। मैडम/श्रीमान. यह पत्र मैंसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड से बकाया चुक में अप्रदत्त ऋण की माँग सुचना का है

2. कृपया चूक में अप्रदत्त ऋण का विवरण निम्नवत प्राप्त करें : ऋण का विवरण कुल बकाया ऋण (किसी ब्याज या जुर्माने सहित) र . 942980915/- तथा (01.12.2014 से ब्याज)

z	चूक में ऋण की राशि	रु. 942980915/- तथा (01.12.2014 से ब्याज)
ì	तिथि जब ऋण बकाया था	31.12.2014
4	तिथि जब चूक की गयी	12.09.2012
s	ऋण की प्रकृति	सावधि ऋण तथा नकद साख (एफबीएण्डएनएफबी)
	धारित प्रतिभृति के विवरण सहित प्रतिभृत ऋण, इसके सुजन की तिथि, क्रेडिटर के अनुसार इसका अनुमानित मूल्य (जैसा प्रयोज्य हो), तथा प्रतिभृतियों का विवरण	State Silver Carrier state state at Africa at Africa
7	अप्रतिभूत ऋण (जैसा प्रयोज्य हो)	
8	उन वस्तुओं के परिप्रेक्ष्य में जिसके लिए ऋण सन्दर्भित है, के स्वामित्व अरेंजमेंट (यदि कोई हो) के रिटेशन का विवरण (प्रति संलग्न करें)	
7	चूक पर न्यायक्षेत्र के न्यायालय, अधिकरण या पंचाट पैनल के आदेश का विवरण, यदि कोई हो (आदेश की प्रति संलग्न करें)	
10	सूचना उपयोगिता, यदि कोई हो, सहित चूक का रिकार्ड (प्रति संलग्न करें)	
"	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 10) के तहत सब्सेसन प्रमाण पत्र, या वसीयत का प्रोवेट, या प्रशासन का पत्र, या न्यायालय की डिक्री (जो प्रयोज्य हो) का विवरण (प्रति संस्यन करें)	
12	उस कानून, अनुबन्ध या अन्य प्रावधान का दस्तावेज जिसके तहत ऋण बकाया हुआ (प्रति संलग्न करें)	
13	बैंक की स्टेटमेंट जहाँ सामान्यतः कॉर्पोरेट देनदार के	

ऋण के परिप्रेक्ष्य में उस तिथि से जब ऋण लिया गया की जाती है

ऋण के अस्तित्व तथा चूक को राशि प्रमाणित करने के इन्टर-से अनुवन्ध, टर्म कंस्वोर्टियम अनुवन्ध, कार्यशील पूंज क्रम में इस सूचना के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूची कंस्तोर्टियम, दृष्टिबंधक का संयुक्त विलेख, संयुक्त मास्टर अनुबन्ध

यह सूचना बैंक के पास उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के अध्यधीन है। राशि प्राविजनल है। 3 यदि आपको विश्वास है कि इस सूचना की प्राप्ति के पूर्व ऋण का पुनर्भुगतान कर दिया गया है तो कृपया इ सचना की प्राप्ति की तिथि से चौदह दिनों के भीतर हमें ऐसे पनर्भगतान का विवरण निम्नवत भेजें :

(क) गारंटर के बैंक खाते से अप्रदत्त राशि के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के रिकार्ड की प्रमाणित प्रति, अथवा (ख) गारंटर द्वारा जारी अप्रदत्त राशि हेतु चेक के नकदीकरण का प्रमाण, अथवा (ਸ) किसी ਸੇਲੇ ਰਿਕਾਰ की ਲਲਾਇਰ ਸੀਰ [कੇਰਿਟਰ का ਰਾਸ਼] ਚਿਲਤੇ ਖਸਰਾਰ ਸਗਾ किया है। 4. अधोहस्ताक्षरी इस पत्र की पाप्ति से चौदह दिनों के भीतर अपदत्त ऋण का पर्ण भगतान बिना शर्त करने क

आपसे निवेदन करता है जिसमें असफल होने पर आपके विरुद्ध संहिता के तहत ऋणशोधन समाधान प्रक्रिया प्रारम्

अधिकृत प्राधिकारी, युको बैंक

L&T Financial Services

कब्जे की सचना (नियम-8(1) सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002)

की जायेगी।

1. जहाँ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट,2002 और सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एंफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के (नियम 3) और सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्सिट) रूल्स, 2002 के नियम 9 के साथ पढते हुए उक्त कानून की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, एल&टी हाउसिंग फायनांस लिमिटेड (एलटीएचएफ) ने 1. विजेंद्र मीणा कर्जदार 2. सहकर्जदार के रूप में भोटी मीणा को 04/03/2021 के अनुसार उक्त सूचना में वर्णित राशि रू.4177636.19 🗸 को चुकता करने के लिए मांग सूचना दिनांक 04/03/2021 को जारी की थी जिसमें उक्त सूचना मिलने के दिनांक से 60 दिन के अंदर मांग सूचना के दिनांक 30/03/2021 से मुगतान प्राप्ति के दिनांक तक के भावी ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ भूगतान का आवाहन किया गया था.

2. और जहाँ कर्जदार और सह कर्जदार, उक्त सूचना दिए जाने के बावजूद आगामी ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ संपूर्ण सूचना की राशि चुकता करने में विफल रहे हैं.

3. और जहाँ एनसीएलटी मुंबई तथा एनसीएलटी कोलकाता द्वारा मान्य विलय के द्वारा अमालगमेशन की योजना के अंतर्गत एल&टी हाउसिंग फायनांस लिमिटेड का विलय एल&टी फायनांस लिमिटेड (एलटीएफ) के साथ 12 अप्रैल 2021 को प्रभावी रूप से हुआ है. एतदुद्वारा कर्जदारों और/या रेहनकर्ताओं और जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि अघोहस्ताक्षरी ने एलटीएफ के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अपनी क्षमता में, इस दिनांक यानी 12.07.2021 पर उक्त

नियमों के नियम 9 के साथ पढ़ते हुए उक्त कानून की दारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदान किए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित 🛮 संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है. 4. विशेषकर कर्जदारों और/या सहकर्जदार और/या रेहनकर्ता को और जनता को सामान्य रूप से एतदद्वारा संपत्ति के साथ कोई मौदा नहीं करने के लिए सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई मी

सौदा 🖦 4177636.19/ - (रुपए इकतालीस लाख सतहतर हजार छह सौ छतीस और पैसे उन्नीस मात्र) और मांग सूचना के दिनांक से मुगतान प्राप्ति के दिनांक तक उस पर ब्याज व अन्य शुल्कों के साथ मांग सूचना में वर्णित राशि के लिए एल&टी फायनांस लिमिटेड की कार्रवाई के अधीन होगा.

अचल संपत्ति का वर्णन

संपत्ति का पता- प्लॉट नं.5, गुरुदेव विहार-2, जोदाला पावर हाउस, सीकर रोड, जयपुर, राजस्थान, भारत 302023 का सारा हिस्सा और खंड

स्थान: जयपुर, राजस्थान प्राधिकत अधिकारी एल&टी फाइनेंस लिमिटेड के लिए खाता नं: JPRHL15000082, JPRHL15000075

प्रपत्र सं. 155 (देखें नियम 329)

लेनदारों का स्वैच्छिक समापन टाइयो मेम्ब्रेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(परिसमापन के तहत कंपनी) पंजीकृत कार्यालय का पता 81/1, तीसरी मंजिल, अडचिनी, अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली-110017

योगदानकर्ता की अंतिम आयोजन बैठक की सचना

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 509 के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि उपरोक्त नामांकित कंपनी के सदस्यों की एक अंतिम बैठक 81 / 1, तृतीय तल, आदचीनी, अरबिंदे मार्ग, नई दिल्ली — 110 017 में सोमवार, 30 अगस्त, 2021 को सुबह 11:00 बजे आयोजित की जाएगी, उनके सामने एक खाता रखने के उद्देश्य से, जिस तरीके से वाइंडिंग-अप संचालन किया गया है और कंपनी की संपत्ति का निपटान किया गया है और किसी भी स्पष्टीकरण की सूनवाई करता है जोकि परिसमापक द्वारा दिया जा सकता है और कंपनी के एक विशेष संकल्प द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जिस तरह से कंपनी के परिसमापक की बही—खातो और दस्तावेजों का निपटान किया जाएगा।

> हस्ता / -हिमांशु श्रीवास्तव (परिसमापक) | सदस्यता सं. 502612 पताः ई-1704, आईआरईओ अपटाउन,

सेक्टर-66, गुड़गांव-122001, हरियाणा, भारत दिनांक 15 जूलाई, 2021

कंपनी का नाम

Indian Bank इंडियन बैंक ALLAHABAD

शाखा कार्यालय : जे—13 / 33, पटेल मार्किट, राजौरी गार्डन, वेस्ट दिल्ली—110027 टेली. नं. (011) 25193097, फैक्स नं. (0<u>11) 25430415 ई</u>—मेलः rajoungarden@indianbank.co.ii

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) वृंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय) (अधिनियम), 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्ते शक्तियों के अनुपालन इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित यूएसएस 33,707,074.85 (शब्दों में यूनाइडेट स्टेट्स डॉलर्स तैंतीस मिलियन सात सौ और सात हजार चौहत्तर और सेंट्

लि. को बुलाने के लिए दिनोंक 26.03.2021 को मांग सूचना जारी की थी। ऋणी राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतद्द्वारा ऋणी और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नेयम ८ के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर 12 जुलाई, 2021 को कब्जा ले

वासी केवल) राशि का भुगतान करने के लिए ऋणी मैसर्स अमरोज़ सिंगापुर पीटीई

लिया है। वेशेष रूप से ऋणी और सर्वसाधारण को एतदुद्वारा संपत्ति के साथ लेन—देन न करने की चेतावनी दी जाती है व संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन यूएसएस 33,707,074.85 (शब्दों में यूनाइडेट स्टेट्स डॉलर्स तैंतीस मिलियन सात सौ और सात हजार चौहुत्तर और सेंट पिचासी केवल) और उसपर ब्याज, के लिए इंडियन बैंक के प्रभार का विषय होगा।

प्रनार का विषय होगा। ऋणी का घ्यान प्रतिभूतित संपत्ति को छुड़ाने के संबंध में उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (८) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित है। अचल संपत्ति का विवरण

कमर्शियल फ्लैट नं. 409. चौथी मंजिल के सभी भाग व पार्सल, माप लगभग 700.13 वर्ग फुट अर्थात् ६६,०६५ वर्ग मीटर, कृष्णा अपार्ट बिजनेस स्कवायर, प्लॉट नं. डी–4, ५ व ६, वजीरपुर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नेताजी सुभाव प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली—110034 सीमाएं : पूर्व में : ओपन / प्रोजेक्ट का अन्य टॉवर पश्चिम में : कॉमन पैसेज / यूनिट नं. 401 उत्तर में : ओपन / सड़क दक्षिण में : यूनिट नं. 408 / संडक

हस्ता./ दिनांक : 12.07.2021 स्थान : राजौरी गार्डन, दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक के लिए

"), 1. अमरोज़ सिंगापुर पीटीई लि. (ऋणी) : पता (सिंगापुर) : ३, शेनटन वे, शेनटन हाउस # 14—01, सिंगापुर 068805 पता (भारत) : प्लॉट नं. ६९, सेक्टर नं. २, सेंट जोसेफ हॉस्पिटल े पास, गांधीघाम, जिला कच्छ, राज्य गुजरात भारत श्री मुकेश गुप्ता (गारंटर् / गिरवीकर्ता) : पता (सिंगापुर) : 26, केप्पल बे, ड्राइव #04—38

केप्पल बे में कॅरिबियन, सिंगापुर 098648 पता (भारत) : प्लॉट नं. 69, सेक्टर नं. 2, सेंट जोसेफ हॉस्पिटल के पास, गांधीधाम, जिला कच्छे, राज्य गुजरात भारत 3. श्रीमती गुप्ता अंजू मुकेशकुमार (गारंटर) : पता (सिंगापुर) : 26, केप्पल बे, ड्राइव 🛊 04-38, केप्पल बे में कॅरिबियन, सिंगापुर 098648 पता (भारत) : प्लॉट नं. 69, सेक्टर नं. 2, सेंट जोसेफ हॉस्पिटल के पास, गांधीधाँम, जिला कच्छ, राज्य गुजरात भारत

सुश्री गुप्ता शिवानी मुकेशकुमार (गारंटर) : पता (सिंगापुर) : 26, केप्पल बे, ड्राइव # 04–38, केप्पल बे में कॅरिबियन, सिंगापुर 098648 पता (भारत) : प्लॉट नं. 69, सेक्टर नं. 2, सेंट जोसेफ हॉस्पिटल के पास, गांधीघाम, जिला कच्छ, राज्य गुजरात भारत

Fullerton India फुर्लृटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड निगमित कार्यालयः सुप्रीम बिजनेस पार्क, फ्लोर 5 व 6, बी विंग, पवई, मुंबई 400 मांग सूचना

मांग सूचना वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनिय ("अधिनियम") और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 ("नियमावली") के प्रावधानों के अंतर्गत ("अधिनयम") और प्रतिभूति हिंत (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 ("नियमावली") के प्रावधानों के अतर्गत फुर्लटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (एफआईसीप्ता)एल) के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधिकारा के अत्रगत अधोहस्ताक्षरी ने नियम 3 के साथ पठित घारा 13 (12) के अंतरांत प्रवत्त शिक्तायों के अनुपालन में और अधिनयम के अंतर्गत उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के मीतर संबंधित सूचना/ ओं में वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित ऋणी(यों) को बुलाने के लिए अधिनियम की घारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचनाएं जारी की थीं। अधोहस्ताक्षरी कारणवश मानता है कि ऋणी मांग सूचना(ओं) की सेवा को अनदेखा कर रहा है, अतः सूचना की सेवा नियमों के अनुसार जोड़कर और प्रकाशन द्वारा प्रभावित की जा रही है। मांग सूचना(ओं) की सामग्री यहां नीचे दी जा रही है। स्वाप्त स्वाप्त की सेवा नियमों के अनुसार जोड़कर और प्रकाशन द्वारा प्रभावित की जा रही है। मांग सूचना तिथि अचल संपत्ति, निरती संपत्तियों का विवरण

Me-11(41) 47 -11-1		जनवारानार्वार विनास्त्र विनास्त्र विनास्त्र विनास्त्र विनास्त्र विनास्त्र विनास्त्र विनास्त्र विनास्त्र विनास्त
सुनील कुमार तुली नीलम तुली रॉयल कलेक्शन्स खाता नं. 173001310035722	राशि 26-06-2021 Rs. 3,55,83,468/- As on 22-06- 2021	मूमि / मकान बियरिंग नंबर सी—105 ब्लॉक— सी, सेक्ट—44, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 के संबंध में अचल संपत्ति के सभी माग व पार्सल माप 350 वर्ग मीटर
आई एस इंजीनियरिंग वर्क्स मोहम्मद सुल्तान खान आई एस ऑटोमोबाइल्स नाजरा खानम खाता नं. 173001310616035 & 173001310721380	26-06-2021 Rs. 2,37,40,623 /- As on 13-05- 2021	प्रतिभूतित संपत्ति 1: अचल संपत्ति बियरिंग नं. बी—14, के सभी भाग व पार्सल क्षेत्र माप 603.50 वर्ग मीटर, ट्रोनिका सिटी लोनी, परगना व तहसील गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद प्रतिभूति संपत्ति 2: अचल संपत्ति बियरिंग नं. बी—14/बी—3., के सभी भाग व पार्सल क्षेत्र माप 768 वर्ग मीटर, ट्रोनिका सिटी लोनी, परगना व तहसील गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद
स्टील हट निशिष्ठ शर्मा नीना शर्मा मेजर एंड माइनर एगज्मस प्रा. लि. आर्यमन शर्मा खाता नं. 173001510574254 & 173003910601273	28-06-2021 Rs. 1,12,20,368/- As on 18-06- 2021	अचल संपत्ति बियरिंग यूनिट नं. 704, 7वीं मंजिल, टॉवर—बी, मिलेनियम प्लाजा, सेक्टर 27, गुड़गांव, हरियाणा —201301 के सभी भाग व पार्सल माप 1130 वर्ग फुट

दिनांक : 15.07.2021 स्थान : दिल्ली एनसीआर

. पंजीकृत कार्यालय: टेक्नोलपोलिस, 7वीं मंजिल, प्लॉट नं. 4,

ब्लॉक बीपी, सेक्टर 5, सॉल्ट लेक, कोलकाता - 700091 सीआईएन नं:U65910WB1993FLC060810

एल&टी फायनांस लिमिटेड

हस्ता./— प्राधिकृत अधिकारी फुर्लटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना

यह सचना आरबीआई के परिपन्न दीएनबीएस (पीदी) सीसी सं 82/03.02.02/2006-07 दिनांव अक्टबर 27, 2006) एवं डीएनबीआर. (पीडी) 029/सीजीएम/(सीडीएस)-2015 दिनांक जलाई 09, 2015 के अनुसरण में दी जा रही है। कम्पनी ने दो अंतरिक्त निदेशकों यानि श्री राधे श्याम गोयल (DIN: 08785088) एवं श्री अंकित सुन्दरियाल (DIN: 08756839) को नियुक्त करने का निर्णय किया है। आरबीआई के परिपन्न डीएनबीआर (पीडी) सीसी सं. 065/03.10.001/ 2015-16 के मदेनजर एनबीएफरी के पबन्धन में किसी भी बदलाव के लिए आरबीआई की पूर्व लिखित अनुमति की आवश्यकता होगी जिसके परिणाम स्वरूप, स्वतंत्र निदेशकों के छोडकर 30 प्रतिशत से अधिक निदेशकों का परिर्वतन होगा। कम्पनी द्वारा पहले ही रिर्जव बैंक ऑफ इण्डिया को आवेदन किया जा चुका है एवं प्रबन्धन में अतरिक्त निदेशक की प्रस्तावित नियुक्ति का अनुमोदन पत्र सं. प.वि.नईदि.सं. एस135/सीएमएस-VII/05.16.062/2021 22 दिनांक 13 जुलाई, 2021द्वारा प्राप्त कर लिया है। उपरोक्त वर्णित आवेदन की एक प्रति एवं आरबीआई के अनुमोदन की एक प्रति कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सार्वजनिक व देखने हेतु व्यवसाय घंटों के मध्य i.e. 10:00 प्रातः से 5:00 साय तक उपलब्ध है।

यदि किसी को कम्पनी के मंडल में उपरोक्त-वर्णित अंतरिक्त निदेशक की नियक्ति व सम्बन्ध में कोई आपित हो, तो वह उसको इस सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर निम्न में से किसी को सूचित करे:

श्री राहल कमार कम्पनी सचिव

ईमेल: rahul.k@peaksecurities.in पता: 307/1/125 गांऊन्ड फ्लोर, शाजादा बाग एक्स (132ए के सामने) नई दिल्ली-110035

महा प्रबन्धक

डिपार्टमैन्ट ऑफ नान—बैकिंग सुपरविजन रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया

6 संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

ਰਿथि: 14/07/2021 स्थान : दिल्ली

भारत हेवी इलेक्ट्रिक्ट्स लिमिटेड _{पीबाईपन: L74899DL1964GO1004281} बीएचईएम

तियः "बीएवईएत हाउस" सीरी फोर्ट, नई दिल्ली-टेलीः 011-66337000,फैक्सः 011-66337428 (कम्पनी के इक्विटी शेयरघारकों को सूचित करने हेतु)

विषयः निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण में कंपनी के इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण यह सूचना निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि नियम 2016, यथा संशोधित, के अनुसरण में प्रकाशित की जा रही है। उन शेयरधारकों को नोटिस दिया जाता है जिन्होंने कंपनी द्वारा 2013-14 (अंतिम लामांश) से लगातार घोषित लामांशों को नहीं मुनाया है, और अगर वे 19 अक्टूबर, 2021 तक लामांश का दावा नहीं करते हैं तो उनके अंतर्निहित शेयरों के आईईपीएफ में स्थानांतरण हेतु कार्यवाही

नम्बर या डीपी आईडी/ग्राहक आईडी कम्पनी की वेबसाइट https://www.bhel.com/index.php

की जाएगी। जिन शेयरघारकों के शेयर स्थानांतरण के लिए दायी है, उनके नाम, शेयर

shareholders-whose-shares-are-liable-be-transferred पर उपलब्ध है। नियमों में उल्लेखित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, कम्पनी ने आईईपीएफ खाते में अंतरण के योग्य सभी शेयरों के बारे मे संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर सूचित किया है। रोयरधारकों को परामर्श दिया जाता है कि वे दावा न किये गये लामांश हेतु उपरोक्त तिथि तक अप दावा प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा इन्हें मुना सकते हैं। इसके लिए वे सभी अपेक्षित दस्तावेजी समेत एक आवेदन पत्र हमारे एकिस्ट्रार एवं हस्तांतरण एजेंट, मैसर्स अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड के पास उपरोक्त तिथि तक अवस्य भेजे । अगर शेयर घारक उपरोक्त तिथि तक लामांश हेतु अपना दावा प्रस्तुत नहीं करते अथवा इन्हें नहीं मुनाते हैं तो कम्पनी पूर्वोक्त नियमों में उल्लेखित सम्यक प्रक्रिया अपनाते हुए 2013–14 (अंतिम लामांश) के दावा न किये गये लामांश के साथ, बिना किसी अगली

ज्यया ध्यान दें:--शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण के खाते में हस्तांतरित किये गये दावा न किये गये लाभांश और शेयर एवं उन पर उपार्जित लाभ सहित, यदि कोई हो, नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं को परा करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण से दावा करके वापस ले सकते हैं।

सूचना के इन शेयरों को आईईपीएफ में हस्तांतरित करने के लिए बाध्य होगी।

इस मामले में किसी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु शेयरबारक कृपया सम्पर्क करें:- रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट- मैसर्स अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड, श्री रमेश खटुआ, 4ई/2 अलंकित हाउस, इंडियालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055, टेली.: 011-42541234; फैक्सः 011—23552001; ईमेल : rta@alankit.com वेबसाइट : www.alankit.co शेयरधारक कपया ध्यान दें कि:-

डीमेट फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारक संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डी.पी.) से संपर्क कर सकते हैं ताकि एनईसीएस/ईसीएस चुविधा का लाग उठा सकें या पता/बैंक डिटेल्स/ एनईसीएस/ईसीएस मैंडेट को यदि कोई हो तो अपडेट कर सकते हैं।

भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारक पता / बैंक विवरण, एनईसीएस / ईसीएस मैंडेट रं किसी भी अपडेशन के लिए हमारे आरटीए से संपर्क कर सकते हैं। कंपनी की ग्रीन पहल का समर्थन करने के लिए शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे

अपने ईमेल आई.डी. को अपने डी.पी. के साथ (यदि शेयर डीमेट फॉर्म में हो) तथा हमारे आरटीए के साथ ईमेलः rta@alankit.com पर (यदि शेयर भौतिक रूप में हो) पंजीकृत करें। कृते मारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

ाई दिल्ली : 14.07.2021

JBM AUTO LIMITED (CIN: L74899DL1996PLC083073)

े हस्ता./— राजीव कालड़ा

कंपनी सचिव

E-mail:secretarial.jbma@jbmgroup.com Website: www.ibmgroup.com Ph. 011-26427104-06; Fax: 011-26427100

Regd. Office:601, Hernkunt Chambers,

89, Nehru Place, New Delhi - 110019

NOTICE Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection **Fund (IEPF) Authority**

This Notice is published pursuant to the provisions of sub section (6) of section 124 of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 including any amendment and re-enactment thereof. To comply with the aforesaid provisions, the Company shall transfer all shares, in

respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more from financial year 2013-14 shall be transferred by the Company in the name of Investor Education and Protection Fund(IEPF) as set up by the Central Government by the due date i.e. 29th October, 2021 as per Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 including any amendment and re-enactment thereof

Accordingly, the Company has communicated all the concerned shareholders through speed post at their address registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent Limited (RTA) records, whose shares are liable to be transferred to relevant Account of IEPF Authority. The Company has also uploaded on its website www.jbmgroup.com full details containing names of such shareholders and their folio number or DP ID- Client ID with their shares liable to be

transferred to the IEPF Authority.
The shareholders may please not in the account of the IEPF Author shareholder for sale or transfer or and provisions as prescribed in the Companies Act, 2013.
Please also note that, both the The shareholders may please note that after the above shares which will be credited in the account of the IEPF Authority then such shares will not be available to the shareholder for sale or transfer or dealt with in any manner except as per the proces and provisions as prescribed in the aforementioned rules of section 124(6) of the

Please also note that, both the unclaimed dividends and corresponding shares including all benefits accruing on such shares, if any, once transferred to IEPF Authority can be claimed back from IEPF authority after following the procedure prescribed in the aforesaid rules.

The shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority, may note that Company would issue the duplicate share certificate(s) in lieu of original share certificate(s) held by the shareholders. After issue of duplicate share certificates, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificates into demai form and transfer in favour of Authority. In respect of shares held in demat form, the Company shall inform the depository by way of corporate action, where the shareholders have their accounts for transfer in favour of the Authority.

The concerned shareholders are requested to claim unclaimed dividend for the financial year 2013-14 and onwards by making an application to the Company/RTA by 25th October, 2021, failing which their shares shall be transferred to IEPF Authority. For claiming the unclaimed dividend or in case you need any information/clarification, please write to MCS Share Transfer Agent Limited, Registrar & Share Transfer Agent of the Company or email at secretarial.jbma@jbmgroup.com

For JBM Auto Limited (Vivek Gupta)

Place: New Delhi

Chief Financial Officer & Company Secretary



कब्जा नोटिस

[नियम 8 (1)]

जहाँ अघोहस्ताक्षरी ने एल&टी फायनांस लिमिटेड (पहले एल&टी हार्जिंग फायनांस के रूप में ज्ञात जिसका एल&टी फायनांस लिमिटेड ('एलटीएफ') के साथ 12 अप्रैल 2021 को प्रभावी रूप से विलय हो चुका है) का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, सिक्योरिटाइजेशन एंड एकस्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (सेकंड) एक्ट, 2002 और सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एंफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 3 के साथ पढते हुए धारा 13(12) के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए कर्जदार, सह-कर्जदार और गारंटर्स को नीचे संलग्न मांग सूचना में वर्णित राशि की चुकौती के लिए मांग सूचना जारी की थी जिसमें उक्त सूचना मिलने के दिनांक से 60 दिन के अंदर मांग सूचना के दिनांक से लेकर मुगतान मिलने और/या प्राप्त होने के दिनांक तक के ब्यांज और अन्य शुल्कों के साथ मुगतान का आवाहन किया गया था. कर्जदार, रेहन रखनेवाले व्यक्ति, गारंटर ब्याज और अन्य प्रमारों के साथ मिलकर संपूर्ण सूचना की राशि चुकता करने में विफल रहने पर एतदद्वारा कर्जदार/ सह-कर्जदार/ गारंटर और जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि अघोहस्ताक्षरी ने इस सूचना के उक्त नियम 8 के अंतर्गत यहाँ नीचे वर्णित गिरवी संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है.

ऋण खाता	उधारकर्ता/ओं,			लिए गए कब्जे का	
संख्या	सह–उचारकर्ता/ओं और गारंटीदाताओं का नाम	बंधक रखी गई संपत्तियों का विवरण	दिनांक	बकाया राशि (₹)	दिनांक और प्रकार
DELHL19000694 और DELHL20000161	उकरान ज्वैलर्स तिरज कुमार सतबिरी निरज कुमार	सारा हिस्सा और खंड जिसका पता है: फ्लैट नं. 628, पॉकेट 1, ग्रुप II, टाइप बी, सेक्टर बी-4, नरेला, दिल्ली 110040.	28.04.2021	05.04.2021 को 48,03,466.12/- रुपये	12.07.2021 प्रतीकात्मक कब्जा

कर्जदार और/या सह-कर्जदार और/या रेहनकर्ता को विशेष रूप से और जनसामान्य को एतदूद्वारा सचेत किया जाता है कि संपत्ति के साथ सौदा न किया जाय और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा रु. 48,03,466.12/ – (रुपया अंडतालीस लाख तीन हजार चार सौ छियासठ रुपये और पैसे बारह मात्र) की राशि के लिए एलटीएफ के कब्जे के अधीन होगी और साथ ही मांग सुखना की अवधि से लेकर भगतान / प्राप्ति के दिनांक तक का ब्याज और अन्य प्रभार देय होंगे

दिनांक: 15.07.2021 प्राधिकृत अधिकारी एल&टी फाइनेंस लिमिटेड के लिए स्थान: दिल्ली